



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 श्रावण 1932 (श0)  
(सं0 पटना 556) पटना, सोमवार, 9 अगस्त 2010

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

6 अगस्त 2010

सं0 7/सी01-202/2004-गृ0आ0-6375—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परन्तु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, बिहार अभियोजन हस्तक-2003 के नियम-36 में निम्नांकित संशोधन करते हैं :-

बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के नियम-36को एतद् द्वारा उप-नियम (i) के रूप में संख्यांकित किया जाता है और इसके पश्चात निम्नांकित उप-नियम (ii) जोड़ा जाता है ।

(ii) कुल अध्याचित रिक्त के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में आयोग को आवेदन पत्र प्राप्त होने कि स्थिति में, लिखित परीक्षा दो चरणों में अर्थात् (क) प्रारम्भिक परीक्षा एवं (ख) मुख्य परीक्षा, आयोजित की जायगी। प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा, जो बिहार राज्य के असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के चयन हेतु परीक्षा के लिए निर्धारित है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

- (i) यह बिहार अभियोजन हस्तक संशोधन, 2010 कहा जा सकेगा।
- (ii) इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अरुण डेढ़गर्वे,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 556-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>